

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 227]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 मार्च 2025 — फाल्गुन 27, शक 1946

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 मार्च 2025

आदेश

क्रमांक-एफ-54-2/तीन (दो)/न.पा./प्रत्यादिष्ट/2025/4877. — छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 38 के प्रावधानानुसार नगर पंचायत नवागढ़ जिला जांजगीर-चांपा के वार्ड क्रमांक 14 में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी के नाम निर्देशित अभ्यर्थी की मृत्यु दिनांक 08.02.2025 को हो जाने के कारण पार्षद पद का निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्यादिष्ट कर दिये जाने से नियम 38(3) के तहत उक्त पार्षद पद का निर्वाचन संपन्न कराने के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32(1) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 21 की अपेक्षानुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा निम्नानुसार समय-अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :-

| क्र. | कार्यवाही | संबंधित नियम | निर्धारित तारीख | समय |
|------|---|--------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | (i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन (जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा) | 21 | 19.03.2025 बुधवार | पूर्वाह्न 10.30 बजे |
| | (ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन (जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा) | 22-क | 19.03.2025 बुधवार | पूर्वाह्न 10.30 बजे |
| | (iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) | 16 | 19.03.2025 बुधवार | पूर्वाह्न 10.30 बजे |
| | (iv) नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) | 21 | 19.03.2025 बुधवार | पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक |
| 2. | नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख | 21 (क) | 26.03.2025 बुधवार | अपराह्न 3:00 बजे तक |
| 3. | नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) (रिटर्निंग आफिसर द्वारा) | 21 (ख) | 27.03.2025 गुरुवार | पूर्वाह्न 10:30 बजे से |
| 4. | अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख | 21 (ग) | 29.03.2025 शनिवार | अपराह्न 3:00 बजे तक |

| | | | | |
|----|---|------------|------------------------|---|
| 5. | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन (रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा) | 31, 32 | 29.03.2025 शनिवार | अभ्यर्थिता वापसी के बाद |
| 6 | मतदान (यदि आवश्यक हो) | 21 (घ) | 08.04.2025 मंगलवार | प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक |
| 7. | मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा (रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा) | 21 (ङ), 74 | 11.04.2025 शुक्रवार | प्रातः 9:00 बजे से |

(माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

हस्ता./—

(सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे)
सचिव.